



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2011

का.आ. 61(अ).—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1924(अ), तारीख 4 अगस्त, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 6 अगस्त, 2010 में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) और रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी किया गया था, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पश्चिमी बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् बोवाईचंडी-आरामबाग (31 किमी.) तक नई लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

और, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार-पत्रों में अर्थात् वर्तमान (बंगला संस्करण), संगबाद प्रतिदिन (बंगला संस्करण), टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी संस्करण), सन्मार्ग (हिंदी संस्करण), तारीख 27 अगस्त, 2010 को उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था;

और, 29 (उन्नीस) आपत्तियां प्राप्त हुई थीं और उन पर विचार किया गया है तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा ;

और, यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त केन्द्रीय सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

पश्चिमी बंगाल राज्य के बर्द्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् बोवाईचंडी-आरामबाग (31 किमी.) नई लाइन के लिए संरचना सहित और बिना संरचना के अर्जन वी जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट सं.	नवीनतम राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट सं.	प्लॉट क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि की किस्म	भूमि की प्रवृत्ति	भूमि के स्वामी, इच्छुक व्यक्ति का नाम	रिकॉर्ड के अनुसार बरगादा/पट्टा/सबायत/पट्टावाली/अनुमति डांग/जोर डांग का नाम, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बोवाई शीट सं.-3, जेएल 35	2643	4830	4830	0.1	निजी	शाली	1)भावतरनी देवी पत्नी कामिनी भट्टाचार्य.	कुछ नहीं
			4831	4831	0.060	निजी	शाली	1)मदन चंद्र खान पुत्र अभिनकांत 2) शक्ति पद कारी पुत्र मंगेन्द्र नाथ 3)सुकुमार खान पुत्र अब्दुल खान 4)पटेल चंद्र प्रमाणिक पुत्र सनस्सी प्रमाणिक	कुछ नहीं
			4832	4832	0.070	निजी	शाली	1)राधा रानी दिकर्पति पत्नी नित्या नंदा, 2)शारदा रानी बाला देवी पत्नी परीतोष दिकर्पति, 3)सतोष कुमार दिकर्पति पुत्र सत्य किकर्पति, 4)गोविंद प्रसाद दिकर्पति पुत्र सत्य किकर्पति 5) नरसिंहा दिकर्पति, पुत्र कैलाश चंद दिकर्पति	मोईनुल हक पुत्र अबु ताहेर मौला
			4833	4833	0.040	निजी	शाली	1)शिव शंकर राय, पुत्र बनमाली राय, 2)हरिशंकर राय, पुत्र अनंत बंदु राय, 3)गोरी शंकर राय, पुत्र बनमाली राय, 4)ताराशंकर राय, पुत्र बनमाली राय	कुछ नहीं
			4841	4841	0.150	निजी	शाली	फकरी चंद्र ऐश, पुत्र तीर्था बासी ऐश	कुछ नहीं
			4842	4842	0.120	निजी	शाली	जगबन्धु दिकर्पति, पुत्र कनई दिकर्पति, 2)प्रवबती देवी पत्नी जगदीशचर राय	कुछ नहीं
			4843	4843	0.060	निजी	शाली	1)बिद्युत कुमार राय, पुत्र एस.एन. राय, 2)नित्य नारायण राय, पुत्र एस.एन.राय, 3)दिनोबन्धु राय, पुत्र एस.एन.राय, 4)जदुनंदन राय, पुत्र एस.एन.राय	कुछ नहीं
			4844	4844	0.050	सरकारी	शाली	पश्चिम बंगाल (सुपुर्द की गई).	कुछ नहीं
			4845	4845	0.050	निजी	शाली	1)रविन्द्र नाथ राय, पुत्र खुदीराम राय, 2)बसंत कुमार राय, पुत्र बंकिम बिहारी राय	कुछ नहीं
			4846	4846	0.070	निजी	शाली	1)मनारंजन राय, पुत्र कृष्णचन्द्र, 2)चित्तरंजन राय पुत्र कृष्णचन्द्र, 3)नरंजन राय पुत्र कृष्णचन्द्र.	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			4849	4849	0.180	निजी	शाली	-	-
2.	नारायणपुरचक जेएल 36	2642	205	205	0.110	निजी	शाली	सूर्या दास बैराग्य पुत्र साची दास, पूरन दास बैराग्य पुत्र साची दास	कुछ नहीं
			206	206	0.100	निजी	शाली	सूर्याकांत बैराग्य पुत्र साचीदास बैराग्य, पूरनदास पुत्र साचीदास बैराग्य	कुछ नहीं
			208	208	0.015	निजी	शाली	जमुना बाला पाल पुत्री सुकुमार पाल	कुछ नहीं
			217	217	0.375	निजी	शाली	प्रभाकर चौधरी रॉय पुत्र शरत चन्द्र रॉय	कुछ नहीं
			218	218	0.455	निजी	शाली	देबोत्तर-श्री श्री बिष्णु ठाकुर ज्यू	सेबायत-बनबिहारी दिकर्पात पुत्र मृगेंद्र नाथ दिकर्पात और अन्य (12)
			221	221	0.435	निजी	शाली	शिबसकर रॉय पुत्र बनमाली रॉय, प्रवर्तित देबी पत्नी जगदीशवर रॉय, बलाई चौधरी रॉय पुत्र शशिभूषण रॉय	कुछ नहीं
			222	222	0.215	निजी	शाली	गोपाल चौधरी चक्रवर्ती पुत्र जतिन्द्र नाथ, दीपाली रानी चक्रवर्ती पुत्री संतोष चक्रवर्ती, परितोष चक्रवर्ती पुत्र जतिन्द्र नाथ, बीनापानी देवी चक्रवर्ती पत्नी संतोष कुमार	कुछ नहीं
			223	223	0.215	निजी	शाली	प्रभावती देवी पत्नी श्री जगदीशवर रॉय, बलाई चन्द्र रॉय पुत्र श्री शशिभूषण रॉय	कुछ नहीं
			224	224	0.475	निजी	शाली	अब्दुल हक मंडल पुत्र श्री बोलोन मंडल, हरमद मंडल पुत्र श्री मनसब मंडल, कोनुजतनेछा बीबी पत्नी श्री नूरमोहम्मद मंडल	कुछ नहीं
			225	225	0.095	निजी	शाली	जगबन्धु दिकर्पात, पुत्र कनई दिकर्पात	बरगादार - काचीराम रॉय पुत्र पंचकारी रॉय
			226	226	0.160	निजी	शाली	शेख अब्दुल रहमान पुत्र शेख अब्दुल सोभान	कुछ नहीं
			227	227	0.540	निजी	शाली	मोजाम्मिल मंडल पुत्र अब्दुल हक, ऐनुलहक हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल	कुछ नहीं
			228	228	0.520	निजी	शाली	शेख हपीजुल रहमान पुत्र सैयद रहमान, ऐनुल हक, मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल, मोजम्मल हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल	कुछ नहीं
			229	229	0.545	निजी	शाली	अल्लाहरक्खा मंडल पुत्र गफुर मंडल, गोलम कीबिरिया पुत्र गफुर मंडल	कुछ नहीं
			230	230	0.045	निजी	शाली	मोजाम्मल मंडल पुत्र अब्दुल हक, ऐनुल हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	गिर शीट सं- 1, जेएल 86	2654	150	150	0.060	निजी	शाली	मोनारा खातून एवं अन्य (8)	जोर डांग तैयार अली मंडल एवं अन्य
			151	151	0.150	निजी	शाली	मजम्मल हक मंडल, ऐनुल हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल	कुछ नहीं
			152	152	0.060	निजी	शाली	झिकरिया हसन मंडल पुत्र अकरम हसन मंडल	कुछ नहीं
			156	156	0.005	निजी	शाली	झिकरिया हसन मंडल पुत्र अकरम हसन मंडल	कुछ नहीं
			157	157	0.060	निजी	शाली	झिकरिया हसन मंडल पुत्र अकरम हसन मंडल	कुछ नहीं
			158	158	0.125	निजी	शाली	-	-
			159	159	0.190	निजी	शाली	बिल्लात अली मंडल, मोजाम्मल हक मंडल ऐनुल हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल, सबारा बीबी पत्नी अबुरा हक बीबी	कुछ नहीं
			160	160	0.230	निजी	शाली	रंगलाल मंडल वक्फ एस्टेट	मोते वाली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल, सिद्धीक अली मंडल, पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, कायम अली मंडल, पुत्री नूर मोहम्मद मंडल
			161	161	0.530	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल वक्फ एस्टेट	मोते वाली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल, सिद्धीक अली मंडल, पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, कायम अली मंडल, पुत्री नूर मोहम्मद मंडल
			162	162	0.130	निजी	शाली	ओमद मंडल पुत्र हदी मंडल, कनुजा खातून बीबी पत्नी नूर मोहम्मद मंडल, खलील मंडल पुत्र हदी मंडल, बरिदानेसा बीबी पत्नी अब्दुल माजिद लायक	कुछ नहीं
			163	163	0.030	निजी	शाली	मोहम्मद महसिन मंडल पुत्र मोहम्मद युसुक मंडल	कुछ नहीं
			165	165	0.230	निजी	शाली	आनन्दमयी मित्रा पत्नी बिगिची कु. मित्रा	बरगादार-शेख मोहम्मद, पुत्र शेख मनन

[भाग II - खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			166	166	0.160	निजी	शाली	अनवर बगम पत्नी सिद्धीक अली मंडल	कुछ नहीं
			167	167	0.450	निजी	शाली	सिद्धीक अली मंडल	कुछ नहीं
			168	168	0.500	निजी	शाली	बिल्लाह अली मंडल, मौज्जम्मल हक मंडल, ऐनुल हक मंडल सभी पुत्र अब्दुल हक मंडल, सबारा बीबी पत्नी अब्दुल हक बीबी	कुछ नहीं
			170	170	0.015	निजी	शाली	बिल्लाह अली मंडल, मौज्जम्मल हक मंडल, ऐनुल हक मंडल सभी पुत्र अब्दुल हक मंडल, सबारा बीबी पत्नी अब्दुल हक बीबी	कुछ नहीं
			171	171	0.270	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल वक्फएस्टेट	मोते वाली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल, सिद्धीक अली मंडल, पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, कायम अली मंडल, पुत्री नूर मोहम्मद मंडल
			172	172	0.200	निजी	शाली	अफजान बीबी पत्नी अबू मसर मंडल	कुछ नहीं
			173	173	0.105	निजी	शाली	शमसुरा खातुन पत्नी अल्लाहरकखा मंडल, सदरे अली मंडल पुत्र गुलाम कीबिरिया मंडल, अशरफ अली मंडल पुत्र अल्लाहरकखा मंडल, अहलादी मंडल पत्नी मुसरफ मंडल, झारिया बेगम पत्नी काजी जौयनल अबेद्दीन, तस्सलीमा बीबी पत्नी गुफुर मंडल	कुछ नहीं
			367	367	0.005	निजी	शाली	सिद्धीक अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल	कुछ नहीं
			368	368	0.170	निजी	शाली	मौज्जम्मल हसन पुत्र केसर मौला, ऐनुल हक मौला पुत्र इस्माइल मौला	कुछ नहीं
			369	369	0.520	निजी	शाली	हाजी अब्दुल कासिम पुत्र धोलन मंडल	कुछ नहीं
			370	370	0.420	निजी	शाली	शेख अब्दुल अली पुत्र हफीजुद्दीन, शेख नौशाद पुत्र शेख हफीजुद्दीन	कुछ नहीं
			371	371	0.280	निजी	शाली	शेख युनुस पुत्र शेख सोमद	कुछ नहीं
			372	372	0.050	निजी	शाली	शेख अब्दुल अली, शेख नौशाद पुत्र शेख हफीजुद्दीन	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			374	374	0.285	निजी	पुकर	मोहम्मद मोहसिन मंडल पुत्र इनायत उल्ला मंडल, सिद्धीकी अली मंडल, कायम अली मंडल सभी पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, कनुजा खातून बीबी पत्नी नूर मोहम्मद मंडल, हसीना बीबी पत्नी चौधरी मोहम्मद हसन, एहसान अली मंडल पुत्र एनातुल्ला मंडल और अन्य (7)	कुछ नहीं
			376	376	0.005	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल वक्फएस्टेट	मोते वाली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल, सिद्धीकी अली मंडल, पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, कायम अली मंडल, पुत्री नूर मोहम्मद मंडल
			377	377	0.135	निजी	शाली	मुदद मंडल पुत्र हरदी मंडल	कुछ नहीं
			378	378	0.520	निजी	शाली	शेख युनुस पुत्र शेख सोमद	कुछ नहीं
			379	379	0.500	निजी	शाली	मुदद मंडल पुत्र हरदी मंडल	कुछ नहीं
			380	380	0.005	निजी	शाली	मोज्जाम्मल हक मंडल, पुत्र अब्दुल हक मंडल, मोहम्मद मोहसिन मंडल पुत्र इनायत उल्ला मंडल, ऐनुल हक मंडल पुत्र अब्दुल हक मंडल, मनोरा खातून पुत्री इज्जातुल्ला मंडल और अन्य (23)	जोर डांग - परसीला खातून पत्नी कायम अली
			381	381	0.350	निजी	शाली	सजहन अली मंडल, जहांगीर मंडल सभी पुत्र सिद्धीकी अली मंडल, साहिदेत्रिसा बीबी पत्नी मंसूर अली मंडल	कुछ नहीं
			382	382	0.285	निजी	शाली	अनवरा बेगम पत्नी सिद्धीकी अली मंडल	कुछ नहीं
			403	403	0.150	निजी	शाली	मोहम्मद मोहसिन मंडल पुत्र इनायत उल्ला मंडल, एहसान अली मंडल पुत्र एनातुल्ला मंडल	कुछ नहीं
			406	406	0.005	निजी	शाली	चौधरी मुजफ्फर हसन सभी पुत्र चौधरी मुजफ्फर हसन. हसीना बीबी पत्नी चौधरी मोहम्मद हसन	कुछ नहीं
			408	408	0.075	निजी	शाली	मुर्तजा बीबी पत्नी हुमत मंडल	कुछ नहीं
			409	409	0.080	निजी	शाली	मुजफ्फर हसन मंडल पुत्र मुनव्वर हसन मंडल, सखावत हसन मंडल पुत्र मुनव्वर हसन मंडल	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			410	410	0.260	निजी	शाली	मुजफ्फर हसन मंडल, सैदुल हसन मंडल, सखावत हसन मंडल, जुल्फिकार हसन मंडल सभी पुत्र मुनव्वर हुसैन मंडल	कुछ नहीं
			411	411	0.265	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल, वक्फ एस्टेट	मातोवली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल एवं अन्य (3)
			412	412	0.160	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल, वक्फ एस्टेट	मातोवली-सूफिया बीबी पत्नी रंगलाल मंडल एवं अन्य (3)
			414	414	0.005	सरकारी	शाली	मोहम्मद मोहसिन मंडल पुत्र मोहम्मद युसुफ मंडल, मोहम्मद यासीन मंडल पुत्र युसुफ मंडल, मोहम्मद नसीम मंडल पुत्र मोहम्मद युसुफ मंडल	कुछ नहीं
			415	415	0.075	निजी	शाली	मोनोरा खातून पत्नी राखीभूल हसनत और अन्य (9)	कुछ नहीं
			418	418	0.070	निजी	शाली	हाशिम अली मंडल पुत्र लुमत मंडल	कुछ नहीं
			419	419	0.210	निजी	शाली	हाशिम अली मंडल पुत्र लुमत मंडल	कुछ नहीं
			420	420	0.47	निजी	शाली	माबिया खातून पत्नी आमिर हुसैन, कायम अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल	कुछ नहीं
			421	421	0.255	निजी	शाली	माबिया खातून पत्नी आमिर हुसैन, कायम अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल	कुछ नहीं
			423	423	0.010	निजी	शाली	मंसूर अली, शमसुर अली मंडल, कोहिनूर मंडल सभी पुत्र कायम अली मंडल	कुछ नहीं
			424	424	0.250	निजी	शाली	-	-
			425	425	0.385	निजी	शाली	हाशिम अली मंडल पुत्र लुमत मंडल	कुछ नहीं
			426	426	0.120	निजी	शाली	मोहम्मद मोहसिन मंडल पुत्र मोहम्मद युसुफ मंडल, मोहम्मद यासीन मंडल, मोहम्मद नसीम मंडल पुत्र मोहम्मद युसुफ मंडल	कुछ नहीं
			427	427	0.110	निजी	शाली	मंसूर अली पुत्र कायम अली मंडल, शमसुर अली मंडल पुत्र कायम अली मंडल, कोहिनूर मंडल पुत्री कायम अली मंडल	कुछ नहीं
			593	593	0.015	निजी	शाली	चौधरी मुजफ्फर हसन पुत्र चौधरी मोहम्मद हसन, हसीना बीबी पत्नी चौधरी मोहम्मद हसन	कुछ नहीं
			594	594	0.295	निजी	शाली	समरेंद्र दत्ता पुत्र कमल कृष्ण दत्ता	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			595	595	0.240	निजी	शाली	सैदा बीबी पत्नी अब्दुल मंडल, हलीमा बीबी पुत्री महसिन मंडल, अंगुरा बीबी पुत्र महसिन मंडल	कुछ नहीं
			596	596	0.335	निजी	शाली	चौधुरी मज्जफर हसन, पुत्र चौधुरी मोहम्मद हुसैन, हसीना खातून पत्नी चौधुरी महदर रहमान, हसीना बीबी पत्नी चौधुरी मोहम्मद हुसैन	कुछ नहीं
			597	597	0.380	निजी	शाली	अक्षय खातून पत्नी शेख महसन	कुछ नहीं
			598	598	0.045	निजी	शाली	कलशुमा बीबी पत्नी शेख वाजिद अली	कुछ नहीं
			599	599	0.030	निजी	शाली	शेख मुजीबुर रहमान पुत्र शेख सैयद, शेख अब्दुल रफीक पुत्र शेख सैयद, शेख हफीजुल पुत्र शेख सैयद	कुछ नहीं
			600	600	0.010	निजी	शाली	जिलर रहमान पुत्र शेख अजीज	कुछ नहीं
			601	601	0.230	निजी	शाली	सिद्दीक अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल	कुछ नहीं
			697	697	0.005	निजी	शाली	जिगरिया हसन मंडल पुत्र इकराम हुसैन मंडल	कुछ नहीं
			709	709	0.170	निजी	शाली	मोतियर रहमान पुत्र शेख जकीर, नजीरा खातून पत्नी इज्जत उल मंडल	कुछ नहीं
			715	715	0.230	निजी	शाली	चौधुरी मज्जफर हसन, पुत्र चौधुरी मोहम्मद हुसैन, हसीना बीबी पत्नी चौधुरी मोहम्मद हुसैन	कुछ नहीं
4.	गुडर, शीट सं 3, जेएल 86	2654	2257	2257	0.130	निजी	शाली	गुलाम अली मंडल पुत्र रहीम मंडल जमादार अली मंडल पुत्र अब्दुल रहीम मंडल, नौसर अली चौधुरी पुत्र नवजान चौधुरी	कुछ नहीं
			2258	2258	0.120	निजी	शाली	मलिका बीबी पत्नी शेख सरमान, अब्दुल खालिक पुत्र शेख सरमान	कुछ नहीं
			2259	2259	0.005	निजी	शाली	जयंत रॉय पुत्र नानीगोपाल रॉय	कुछ नहीं
			2275	2275	0.085	निजी	शाली	-	-
			2276	2276	0.030	निजी	शाली	शेख अल्लारक्खा पुत्र शेख औलाद	कुछ नहीं
			2277	2277	0.110	निजी	शाली	-	-
			2278	2278	0.040	निजी	शाली	धनंजय दत्ता पुत्र ऋषिकेश	कुछ नहीं
			2279	2279	0.170	निजी	शाली	-	-
			2280	2280	0.265	निजी	शाली	इदरीस मंडल पुत्र लहर मंडल	कुछ नहीं
			2281	2281	0.290	निजी	शाली	मलिका बीबी पत्नी शेख सरमान, अब्दुल खालिक पुत्र शेख सरमान	कुछ नहीं
			2282	2282	0.300	निजी	शाली	इदरीस मंडल पुत्र लहर मंडल, नौसर अली चौधुरी पुत्र नवाबजान चौधुरी	कुछ नहीं
			2283	2283	0.730	निजी	शाली	शेख रमजान पुत्र शेख अल्लारक्खा	कुछ नहीं



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2284	2284	0.160	निजी	शाली	शेख अब्दुल सबूद पुत्र शेख अल्लारक्खा	कुछ नहीं
			2285	2285	0.050	वक्फ	शाली	अब्दुल बारू, वक्फ एस्टेट	मातोवली-हिकमत अली शाह एवं अन्य (3)
			2286	2286	0.050	निजी	शाली	-	-
			2287	2287	0.125	वक्फ	शाली	रंगलाल मंडल वक्फ एस्टेट	मातोवली-हिकमत अली शाह एवं अन्य (3)
			2288	2288	0.055	निजी	शाली	चौधुरी मजफ्फर हसन पुत्र चौधुरी मोहम्मद हुसैन, हसीना बीबी पत्नी चौधुरी मोहम्मद हुसैन	कुछ नहीं
			2289	2289	0.350	निजी	शाली	निर्मल चंद्र दत्ता पुत्र जानकी नाथ	कुछ नहीं
			2290	2290	0.235	निजी	डाऊ	ऋषिकेश दत्ता पुत्र अधर चंद्र दत्ता	कुछ नहीं
			2291	2291	0.125	निजी	डाऊ	हरिगोपाल गोस्वामी पुत्र श्याम चरन	बरगादार- श्यामपाडा रूईदास पुत्र श्रीपति
			2292	2292	0.260	निजी	शाली	हाशिम अली मंडल पुत्र नूरमत मंडल तैयब अली मंडल पुत्र हरमत मंडल	कुछ नहीं
			2374	2374	0.015	निजी	शाली	-	-
			2375	2375	0.670	निजी	शाली	सुशील कुमार दत्ता पुत्र रासबिहारी, जयंत राय पुत्र नानीगोपाल राय	कुछ नहीं
			2380	2380	0.075	निजी	शाली	रामचंद्र दत्ता पुत्र आधार चंद्र	कुछ नहीं
			2381	2381	0.095	निजी	शाली	-	-
			2382	2382	0.150	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा पुत्र इंद्र नारायण और अन्य (8)	कुछ नहीं
			2383	2383	0.145	निजी	शाली	माबूद चौधुरी पुत्र अलीजान चौधुरी, मल्लिका बीबी पत्नी शेख सलमान, सादिक चौधुरी पुत्र अलीजान चौधुरी और अन्य (5)	कुछ नहीं
			2384	2384	0.230	निजी	शाली	शशांक शेखर दत्ता पुत्र राधाराम	कुछ नहीं
			2385	2385	0.245	निजी	शाली	मनमोहन राय पुत्र चंडी चरन राय लक्ष्मी नारायण राय पुत्र चंडी चरन और अन्य (5)	जोरडाम-अब्दुल लालित एवं अन्य
			2386	2386	0.205	निजी	डोबा	शेख साबिद अली, शेख साबिर अली सभी पुत्र शेख अल्लारक्खा, शेख अल्लारक्खा पुत्र शेख औलाद	कुछ नहीं
			2387	2387	0.005	निजी	शाली	मलिका बीबी पत्नी शेख सरमान, अब्दुल खालिक पुत्र शेख सरमान	कुछ नहीं
			2427	2427	0.085	निजी	शाली	शेख साबिर अली पुत्र शेख अल्लारक्खा, शेख अब्दुल अदुद पुत्र शेख अल्लारक्खा	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2485	2485	0.060	निजी	शाली	वरदा प्रसन्ना चक्रवर्ती पुत्र दुर्गा प्रसन्ना, बासुदेव दत्ता पुत्र धनंजय एवं अन्य	
			2486	2486	0.360	निजी	शाली	बासुदेव दत्ता पुत्र धनंजय, मनमोहन रॉय पुत्र चंडीचरन रॉय, रघुनाथ रॉय पुत्र षिकेश एवं अन्य (7)	अनुमति डांग-दिवाकर रॉय, लक्ष्मी नारायण रॉय एवं अन्य (5)
			2487	2487	0.010	निजी	शाली	सुशील कुमार दत्ता पुत्र रासबिहारी	कुछ नहीं
			2491	2491	0.830	निजी	शाली	आशीष कुमार साहा, तापस कुमार साहा, अनूप कुमार साहा, अहिभूषण के सभी पुत्र	कुछ नहीं
			2493	2493	0.135	निजी	शाली	सुनील कुमार दत्ता पुत्र सुरेंद्र लाल	कुछ नहीं
			2494	2494	0.055	निजी	शाली	कालीपद मलिक पुत्र कृष्णपद मलिक	कुछ नहीं
			2495	2495	0.035	निजी	शाली	कुशध्वज मलिक, नवकुमार मलिक, प्रशांत मलिक, राधव मलिक के सभी पुत्र, बादल बाला मलिक पत्नी राधव मलिक	कुछ नहीं
			2591	2591	0.300	निजी	शाली	माबूद सादिक, अमीर अली चौधरी पुत्र अलीजान चौधरी	कुछ नहीं
			2592	2592	0.215	निजी	शाली	भवानी प्रसाद हर्द पुत्र मधुसूदन हर्द एवं अन्य	कुछ नहीं
			2762	2762	0.075	निजी	शाली	-	-
			4796	4796	0.005	निजी	शाली	-	-
			4797	4797	0.720	निजी	शाली	-	-
5.	गुईर, शीट सं.-4, जेएल 86	2654	2885	2885	0.070	निजी	शाली	शशाधर दत्ता पुत्र कृष्णचंद्र	कुछ नहीं
			2886	2886	0.145	निजी	शाली	-	-
			2895	2895	0.065	निजी	शाली	रघुनाथ रॉय पुत्र ऋषिकेश, कालीपद रॉय पुत्र ऋषिकेश रॉय चंडी बाला रॉय पत्नी हरिसाधन रॉय	कुछ नहीं
			2896	2896	0.010	निजी	डोबा	शेख साबिद अली पुत्र शेख अल्लारकखा, शेख अल्लारकखा पुत्र शेख औलाद	कुछ नहीं
			2897	2897	0.080	निजी	शाली	बासुदेव दत्ता पुत्र धनंजय	कुछ नहीं
			2898	2898	0.095	निजी	शाली	बासुदेव दत्ता, बलदेव दत्ता, धनंजय के सभी पुत्र, जयदेव दत्ता पुत्र धनंजय दत्ता	कुछ नहीं
			2900	2900	0.180	निजी	शाली	ताहिर अली मंडल पुत्र हाजी हुरमद मंडल	कुछ नहीं
			3573	3573	0.075	निजी	शाली	सिद्दीक अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल, मबिया खातून पत्नी अमीर हुसैन, कायम अली मंडल पुत्र नूर मोहम्मद मंडल	बरगादार -शमशेर साना पुत्र वाजिद साना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3574	3574	0.045	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा, रंजीत कुमार साहा, सुकुमार साहा, अहिभूषण साहा, अजित कुमार साहा सभी पुत्र इंद्र नारायण, लखी रानी साहा पत्नी धीरेन्द्र कुमार, शंकरी साहा पत्नी राधाकृष्ण, उमरानी साहा पत्नी गौरचंद्र	कुछ नहीं
			3575	3575	0.060	निजी	शाली	बासुदेव दत्ता, बलदेव दत्ता, धनंजय के सभी पुत्र, जयदेव दत्ता पुत्र धनंजय दत्ता	कुछ नहीं
			3576	3576	0.220	निजी	शाली	शेख साबिद अली, शेख साबिर अली सभी पुत्र शेख अल्लारक़्खा	कुछ नहीं
			3577	3577	0.270	निजी	शाली	-	-
			3578	3578	0.360	निजी	शाली	सुधीर चंद्र साहा पुत्र कालीपद, हेमचंद्र साहा पुत्र नंदलाल साहा	कुछ नहीं
			3579	3579	0.310	निजी	शाली	मनोआरा खातून पत्नी रबीबुल हसनत, चौधुरी मसरत हुसैन, चौधुरी मज्जफर हुसैन, चौधुरी लियाकत हुसैन, चौधुरी नुरूल हक, चौधुरी नज्जूल लतीफ़, चौधुरी मोहम्मद हुसैन के सभी पुत्र, हसीना खातून पत्नी चौधुरी महदर रहमान, हसीना बीबी पत्नी चौधुरी मोहम्मद हुसैन, तजोमा खातून पत्नी अब्दुल रहीम	कुछ नहीं
			3580	3580	0.275	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा, रंजीत कुमार साहा, सुकुमार साहा, अहिभूषण साहा, अजित कुमार साहा सभी पुत्र इंद्र नारायण, लखी रानी साहा पत्नी धीरेन्द्र कुमार, शंकरी साहा पत्नी राधाकृष्ण, उमरानी साहा पत्नी गौरचंद्र	कुछ नहीं
			3581	3581	0.260	निजी	शाली	शेख रमजान पुत्र शेख बारू	कुछ नहीं
			3582	3582	0.620	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा, रंजीत कुमार साहा, सुकुमार साहा, अहिभूषण साहा, अजित कुमार साहा सभी पुत्र इंद्र नारायण, लखी रानी साहा पत्नी धीरेन्द्र कुमार, शंकरी साहा पत्नी राधाकृष्ण, उमरानी साहा पत्नी गौरचंद्र	कुछ नहीं
			3597	3597	0.140	निजी	शाली	बीनापाणि पॉल पत्नी पांचू गोपाल पाल	कुछ नहीं
			3598	3598	0.300	निजी	शाली	रेखा साहा पत्नी सुकुमार	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3599	3599	0.800	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा, रंजीत कुमार साहा, सुकुमार साहा, अहिभूषण साहा, अजित कुमार साहा सभी पुत्र इंद्र नारायण, लखी रानी साहा पत्नी धीरेंद्र कुमार, शंकर साहा पत्नी राधाकृष्ण, उमाराणी साहा पत्नी गौरचंद्र	कुछ नहीं
			3600	3600	0.380	निजी	शाली	सुधीर चंद्र साहा पुत्र कालीपद	कुछ नहीं
			3601	3601	0.155	निजी	शाली	हसीना बीबी पत्नी चौधुरी मोहम्मद हुसैन	कुछ नहीं
			3602	3602	0.170	निजी	शाली	गीतारानी सरकार पत्नी बंकिमचंद्र सरकार, पुष्पा रानी सरकार पत्नी रघुनाथ	कुछ नहीं
			3603	3603	0.065	निजी	शाली	शिवानी रानी साहा पत्नी अहिभूषण साहा	कुछ नहीं
			3604	3604	0.245	निजी	शाली	बरदा प्रसन्ना चक्रवर्ती पुत्र दुर्गा प्रसन्ना, रतन मलिक, रंजन मलिक सभी पुत्र अमूल्य	कुछ नहीं
			3605	3605	0.410	निजी	शाली	शशांक शेखर दत्ता पुत्र राधारमन	कुछ नहीं
			3606	3606	0.665	निजी	शाली	सिद्धीक अली मंडल, कायम अली मंडल, नूर मोहम्मद मंडल के सभी पुत्र, माबिया खातून पत्नी अमीर हुसैन	बरगादार- समीर सहाना पुत्र वाजिद सहाना
			3607	3607	0.065	निजी	शाली	सुधीर चंद्र साहा पुत्र कालीपद	कुछ नहीं
			3610	3610	0.080	निजी	शाली	रामशंकर नियोगी, श्यामशंकर नियोगी, उमा शंकर नियोगी, दुर्गा शंकर नियोगी, विभूति भूषण के सभी पुत्र	कुछ नहीं
			3611	3611	0.110	निजी	शाली	बलदेव दत्ता पुत्र धनंजय	कुछ नहीं
			3620	3620	0.270	निजी	शाली	मंगला रूईदास पुत्र निधिराम रूईदास, लक्खी रूईदास पुत्र निधिराम, सत्यबाला दासी रूईदास पत्नी निधिराम, अर्वाणि बाला रूईदास पत्नी अमूल्या, अजित कुमार रूईदास पुत्र निधिराम, कृष्णचंद्र रूईदास पुत्र अमूल्य चरन, नारायण चंद्र रूईदास पुत्र अमूल्य चरन	कुछ नहीं
			3621	3621	0.145	निजी	शाली	विभूति भूषण साहा, रंजीत कुमार साहा, सुकुमार साहा, अहिभूषण साहा, अजित कुमार साहा सभी पुत्र इंद्र नारायण, लखी राम साहा पत्नी धीरेंद्र कुमार, शंकर साहा पत्नी राधाकृष्ण, उमाराणी साहा पत्नी गौरचंद्र	कुछ नहीं
			3622	3622	0.225	निजी	शाली	शरत चंद्र रूईदास पुत्र मकखन चंद्र रूईदास	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3625	3625	0.230	निजी	शाली	मायारानी रॉय पत्नी समीर कुमार, शंकर प्रसाद रॉय, सुदर्शन रॉय, सच्चिदानंद रॉय सभी पुत्र हरिसाधन, चंडीबाला रॉय पत्नी हरिसाधन	कुछ नहीं
			3626	3626	0.475	निजी	शाली	सचिंद्र नाथ घोष पुत्र खेत्रमोहन, नब कुमार चौधरी पुत्र फकीर चंद्र	कुछ नहीं
			3627	3627	0.200	निजी	शाली	पद रूईदास पुत्र मिहिलाल	कुछ नहीं
			3628	3628	0.180	निजी	शाली	अर्धेन्द्र रॉय पुत्र पशुपति, जगबंधु रॉय पुत्र पशुपति रॉय, दीनबंधु रॉय पुत्र पशुपति	कुछ नहीं
			3629	3629	0.075	निजी	शाली	बारद प्रसन्ना चक्रवर्ती पुत्र दुर्गाप्रसन्ना, नीलिमा चक्रवर्ती पत्नी सविता प्रसन्ना	कुछ नहीं
			3630	3630	0.005	निजी	शाली	शंकर प्रसाद दान पुत्र अक्षय कुमार	कुछ नहीं
			3631	3631	0.005	निजी	शाली	माबूद चौधरी, सादिक चौधरी, आमिर अली सभी पुत्र अलीजान चौधरी	कुछ नहीं
			3632	3632	0.090	निजी	शाली	मीर इयाद अली पुत्र मीर मोला बक्श, मीर असगर अली पुत्र मीर सेयद अली	कुछ नहीं
			3633	3633	0.470	निजी	शाली	लक्ष्मी रूईदास पत्नी देबेंद्र, सरस्वती रूईदास पत्नी पांचू गोपाल, अवनी बाला रूईदास पत्नी अमूल्या, कृष्ण चंद्र रूईदास पुत्र अमूल्य चरन, नारायण चंद्र रूईदास पुत्र अमूल्य चरन, निर्मला रूईदास पत्नी गोपाल चंद्र	कुछ नहीं
			3634	3634	0.400	निजी	शाली	मायारानी दत्ता पत्नी विष्णुपद दत्ता, चांदीबाला रॉय पत्नी हरिसाधन रॉय	कुछ नहीं
			3635	3635	0.010	निजी	शाली	अब्दुल मोनीरुद्दीन पुत्र शेख माजिद	कुछ नहीं
			3636	3636	0.060	निजी	शाली	बसुदेब दत्ता पुत्र धनंजय	कुछ नहीं
			3637	3637	0.480	निजी	शाली	रसिक चंद्र रूईदासपुत्र नगेंद्र रूईदास, साधन चंद्र रूईदास सभी पुत्र हरिपद रूईदास, उमाबाला दासी रूईदास पत्नी हरिपद रूईदास, कालीपद रूईपद दास पुत्र देबेंद्र नाथ, खुदीराम रूईदास झारू लाल रूईदास सभी पुत्र नगेंद्र नाथ, पवन रूईदास पुत्र नगेंद्र नाथ रूईदास	कुछ नहीं
			3638	3638	0.190	निजी	शाली	सुधीर चंद्र साहा पुत्र कालीपद	कुछ नहीं
			3639	3639	0.110	निजी	शाली	श्रीपति रूईदास पुत्र गयाराम रूईदास	कुछ नहीं
			3640	3640	0.105	निजी	शाली	विष्णुपद दत्ता पुत्र कृष्ण चंद्र	कुछ नहीं
			3641	3641	0.025	निजी	शाली	सुधीर चंद्र साहा पुत्र कालीपद साहा	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3648	3648	0.045	निजी	शाली	मनमोहन रॉय पुत्र चंडी चरन रॉय, रघुनाथ रॉय पुत्र ऋषिकेश, लक्ष्मी नारायण रॉय, ससाधर रॉय पुत्र चंडी चरन, श्यामल कुमार दत्ता पुत्र सुशील कुमार दत्ता, कालीपद रॉय पुत्र ऋषिकेश रॉय, चंडीबाला रॉय पत्नी हरिसाधन रॉय, दिबाकर रॉय पुत्र चंडी चरन	कुछ नहीं
			3651	3651	0.005	निजी	शाली	कार्तिक चंद्र रॉय पुत्र हारू, खुदीराम पुत्र इंद्र रॉय, अजय कुमार रॉय पुत्र इंद्र नारायण, विजय कुमार रॉय पुत्र इंद्र नारायण	कुछ नहीं
			3652	3652	0.935	निजी	शाली	रसिक चंद्र रूईदास पुत्र नगेंद्र रूईदास, साधन चंद्र रूईदास, सभी पुत्र हरिदास, उमाबाला दासी रूईदास पत्नी हरिपद रूईदास, कालीपद रूईदास पुत्र देबेंद्रनाथ पुत्र खुदीराम रूईदास, झारूलाल रूईदास सभी पुत्र नगेंद्रनाथ, पवन रूईदास पुत्र नगेंद्र नाथ	कुछ नहीं
			3653	3653	0.185	निजी	शाली	मीर सैयद अली, मीर इयाद अली सभी पुत्र मीर मौला बक्श	कुछ नहीं
			3654	3654	0.295	निजी	शाली	शेख अब्दुर रसीद, शेख अब्दुर मसरूद्दीन, शेख अब्दुल रज्जाक पुत्र शेख अब्दुर मसरूद्दीन	कुछ नहीं
			3655	3655	0.500	निजी	शाली	औहद बक्श पुत्र शेख ओहीद	कुछ नहीं
			3656	3656	0.310	निजी	शाली	शेख शमसुद ओझा पुत्र शमसुल हुडा, नजमुल हुडा पुत्र शेख नुरूल हुडा, शेख बदुरुल हुडा पुत्र नुरूल हुडा	कुछ नहीं
			4808	4808	0.005	निजी	शाली	-	-
6.	अम्बा, जेएल 98	2660 और 2663	2	2	0.360	निजी	शाली	शेख चंदू मंडल पुत्र हामिद	कुछ नहीं
			3	3	0.090	निजी	शाली	अब्दुल जलील शेख पुत्र मजहर एवं अन्य (3)	कुछ नहीं
			9	9	0.035	निजी	शाली	भोलानाथ चट्टोपध्याय पुत्र शशी भूषण चट्टोपध्याय	कुछ नहीं
			10	10	0.760	निजी	शाली	अफरूजा खातून पत्नी मदूद अली एवं अन्य (4)	कुछ नहीं
			11	11	0.250	निजी	शाली	समसुरा खातून बीबी एवं अन्य (3)	कुछ नहीं
			12	12	0.780	निजी	शाली	अफरूजा खातून एवं अन्य (4)	कुछ नहीं
			13	13	0.550	निजी	शाली	मस्जीना खातून पुत्री चंदू मंडल	कुछ नहीं

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			14	14	0.060	निजी	शाली	शमसेर आलम शेख पुत्र शेख अली बक्श	बरगादार - मोहम्मद युनुस मंडल पुत्र रमजान
			572	572	0.100	निजी	शाली	रहीम बक्श मलिक पुत्र खुशौद	कुछ नहीं
			573	573	0.100	निजी	शाली	अलीमा बीबी पत्नी अब्दुल बारिक	कुछ नहीं
			574	574	0.600	निजी	शाली	शेख याकूब मंडल पुत्र अजीज मंडल एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			575	575	0.485	निजी	शाली	शेख अब्दुल अलीम पुत्र अब्दुल बारिक	कुछ नहीं
			576	576	0.340	निजी	शाली	तोहुरा बीबी पत्नी शेख अब्दुल एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			577	577	0.265	निजी	शाली	तोहुरा बीबी पत्नी शेख अब्दुल एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			583	583	0.175	निजी	शाली	पिरोत्रे काजी साहब ग्राम्य साधारण/मोतोवाली	मोतोवाली - हिलालुद्दीन शेख पुत्र गोपाल एवं अन्य (5)
			584	584	0.020	निजी	शाली	अंसार अली, मोहम्मद मोहसिन एवं अन्य (5)	कुछ नहीं
			585	585	0.165	निजी	शाली	शेख गुलाम किंबरिया पुत्र शेख समीर	कुछ नहीं
			586	586	0.050	देवोत्तर	बास्तु	दनोत्तर कलाचंद करमा ठकुर	सेबायत-कदीलाल पंडित पुत्र मृगेन्द्र एवं अन्य (11)
			598	598	0.005	निजी	शाली	सतीकिंकर सामंता पुत्र कालीपद	अनुमति डांग - सनत कुमार हाती एवं अन्य (2)
			599	599	1.410	निजी	शाली	राजा मियां शेख पुत्र शेख अलकश	कुछ नहीं
			600	600	0.550	निजी	शाली	शमसेर आलम पुत्र अलकश एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			601	601	0.225	निजी	शाली	मोहम्मद बदरे आलम पुत्र खालिक रंजन एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			602	602	0.600	निजी	शाली	नजीरा खातून पत्नी अब्दुल वाहिद एवं अन्य (4)	कुछ नहीं
			654	654	1.100	निजी	शाली	अफरोजा खातून पत्नी मदूद अली एवं अन्य (3 अदद)	कुछ नहीं
			656	656	0.005	निजी	शाली	अफरोजा खातून पत्नी मदूद अली एवं अन्य (3)	कुछ नहीं
			659	659	0.005	निजी	शाली	मुर्तजा खातून बीबी पत्नी मौलवी अब्दुल कासिम एवं अन्य (2)	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			661	661	0.690	निजी	शाली	सत्य किकर सामंता पुत्र कालीपद सामंता एवं अन्य (8)	बरगादार-सनत कुमार हाती पुत्र सारानन एवं अन्य (2)
			662	662	0.675	निजी	शाली	अबू ताहिर शेख पुत्र सादिक	कुछ नहीं
			663	663	0.180	निजी	शाली	निशीय कुमार सामंता पुत्र प्रभाकर सामंता एवं अन्य (4)	कुछ नहीं
			664	664	0.030	निजी	शाली	दुर्गादास मोहंता पुत्र बसंतदास मोहंता एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			666	666	0.225	निजी	तालाब	जालंधर पंडित पुत्र महेंद्र एवं अन्य (32)	कुछ नहीं
			667	667	2.060	निजी	शाली	रहीम बक्श मलिक पुत्र खुशौद एवं अन्य (3)	कुछ नहीं
			669	669	0.005	निजी	शाली	अबू ताहिर शेख पुत्र सदाम अली एवं अन्य (2)	कुछ नहीं
			671	671	0.080	पट्टा	शाली	सुभाष चंद्र हाती पुत्र राजेंद्रनाथ हाती	पट्टा - जाहिरा बेगम पत्नी सामिद अली एवं अन्य (5)
			687	687	0.005	निजी	शाली	मुरतजा खातून बीबी पत्नी मौलवी अब्दुल कासिम	कुछ नहीं
			1095	1095	0.280	निजी	शाली	शेख अबू बाकर पुत्र शेख सादे मनी	कुछ नहीं

[फा. सं. 2010/डब्ल्यू-2/एसईआर/एनएल/11-विशेष रेल परियोजना]  
विनय सिंह, कार्यकारी निदेशक (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(RAILWAY BOARD)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2011

**S.O. 61(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1924(E), dated the 4th August, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 6th August, 2010 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Bowaichandi-Arambagh (31 km.) New Line in the State of West Bengal;

And, whereas, the substance of said notification was published in the daily newspapers, namely, Bartaman (Bengali Edition), Sangbad Pratidin (Bengali Edition), Times of India (English Edition), Sanmarg (Hindi Edition), dated 27th August, 2010 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, 29 (Twenty nine) number of objections were received and same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.



## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project, namely, Bowaichandi - Arambagh (31 Km.) New Line in the district of Bardhaman in the state of West Bengal.

Serial Number	Name of Village	Survey Number	Revenue Survey Plot Number	Latest Revenue Plot Number	Area (in acres)	Type of land	Nature of land	Name of the owner / interested person of land	Name of Bargadar / Patta /Sebayet /Matowali /Anumati Dang /Jordang, if any, as per record
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bowai, Sheet Number-3, Jurisdiction List.35	2643	4830	4830	0.1	Private	Shali	1)Bhabatarini Devi W/o Kamini Bhattacharjee.	Nil
			4831	4831	0.060	Private	Shali	1)Madan Chandra Khan S/o Abanikanta 2)Sakti Pada Kari S/o Mrigendra Nath 3)Sukumar Khan S/o Abanti Khan 4) Patal Chandra Paramanick S/o Sannasi Paramanick.	Nil
			4832	4832	0.070	Private	Shali	1)Radha Rani Dickpati W/o Nitya Nanda, 2)Sarvani Bela Devi W/o Paritosh Dickpoti, 3) Santosh Kumar Dickpoti S/o Satya kinkar Dickpoti, 4)Gobinda Prasad Dickpoti S/o Satya Kinkar, 5)Nrisingha Dickpoti, S/o Kailash chandra Dickpoti.	Moimul Hauk S/o Abu Taher Molla
			4833	4833	0.040	Private	Shali	1)Shib sankar Roy,S/o Banamali Roy 2)Harisankar Roy,S/o Anath Bandu Roy,3)Gouri sankar Roy, S/o Banamali Roy,4)Tarashankar Roy,S/o Banamali Roy	Nil
			4841	4841	0.150	Private	Shali	Fakir chandra Ash,S/o Tirtha basi Ash	Nil
			4842	4842	0.120	Private	Shali	Jagabandhu Dickpoti,S/oKanai Dickpoti,2)Pravaboti Devi, W/o Jagadishwar Roy.	Nil
			4843	4843	0.060	Private	Shali	1)Bidyut Kumar Roy,S/o S.N.Roy, 2)Nitya Narayan, Roy, S/o S.N.Roy, 3)Dinobandhu Roy,S/o S.N.Roy. 4) jadunandan Roy, S/o S.N.Roy.	Nil
			4844	4844	0.050	Govt.	Shali	W.B.Government(vested).	Nil
			4845	4845	0.050	Private	Shali	1)Rabindra Nath Roy,S/o Khudiram Roy,2)Basanta Kumar Roy,S/o Bankim Bihari Roy	Nil
			4846	4846	0.070	Private	Shali	1)Manoranjana Roy,S/o Krishna chandra,2)Chitaranjan Roy S/o Krishnachandra,3)Niranjan Roy, S/o Krishnachandra,	Nil
			4849	4849	0.180	Private	Shali		
2.	Narayanpurh ak. Jurisdiction List.36	2642	205	205	0.110	Private	Shali	Surya Das Bairagya S/o Sachi Das , Purna Das Bairagya S/o Sachi Das	Nil
			206	206	0.100	Private	Shali	Suryakanta Bairagya s/o Sachidas Bairagya, Purnadas beiragya S/o Shachidas Bairagya	Nil
			208	208	0.015	Private	Shali	Jamuna Bala Pal D/o Sukumar Pal	Nil
			217	217	0.375	Private	Shali	Pravakar ch. Roy S/o Sharat Chandra Roy.	Nil
			218	218	0.455	Private	Shali	Debottar-Sri Sri Bishnu Thakur Jiu	Sebayet - Banabihari Dikpati S/o Mrigendra Nath Dikpati and others (12 nos.)

115 9/11-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			221	221	0.435	Private	Shali	Shibsakar Roy S/o Banamali Roy, Pravabati Debi W/o Jagadiswar Roy, Balai Ch. Roy S/o Shashibhusan Ray	Nil
			222	222	0.215	Private	Shali	Gopal ch. Chakraborty S/o Jatindra Nath, Dipali Rani Chakraborty d/o Santosh Chakraborty, Poritosh Chakraborty S/o Jatindra Nath, Binapani Debi Chakraborty W/o Santosh Kumar	Nil
			223	223	0.215	Private	Shali	Prabhabati Devi W/o Jagadiswar Roy, Balai Chandra Roy S/o Shashibhusan Ray.	Nil
			224	224	0.475	Private	Shali	Abdul Hauk Mandal S/o Bholon Mandal, Hormad Mandal S/o Monsab Mandal, Konujatmechha Bibi W/o Nurmahammad Mandal.	Nil
			225	225	0.095	Private	Shali	Jagabandhu Dickpoti S/o Kanai Lal Dikpoti	Bargadar - Kachiram Roy S/o Panchkari Roy
			226	226	0.160	Private	Shali	Sk Abdul Rahaman S/o Sk. Abdul Sobhan	Nil
			227	227	0.540	Private	Shali	Mozammel Mandal S/o Abdul Hauk, Ainul Hauk Mandal S/o Abdul Hauk Mandal	Nil
			228	228	0.520	Private	Shali	Sk. Hapizul Rahaman S/o Saiyad Rahaman, Ainul Hauk Mandal S/o Abdul Hauk Mandal, Mozammel Hauk Mandal S/o Abdul Hauk Mandal	Nil
			229	229	0.545	Private	Shali	Allarakhia Mandal S/o Gafur Mandal, Golam Kibiria S/o Gafur Mandal	Nil
			230	230	0.045	Private	Shali	Mozammel Mandal S/o Abdul Hauk, Ainul Hauk Mandal S/o Abdul Hauk Mandal	Nil
3.	Guir, Sheet Number-1, Jurisdiction List.86	2654	150	150	0.060	Private	Shali	Monoara Khatun and others (8 nos.)	Jor Dang Taior Ali Mandal & others
			151	151	0.150	Private	Shali	Majammal Haq Mandal, Ainul Hauk Mandal al S/o Abdul Hauk Mandal	Nil
			152	152	0.060	Private	Shali	Jhikria Hossen Mandal S/o Ekram Hossen Mandal	Nil
			156	156	0.005	Private	Shali	Jhikria Hosen Mandal S/o Ekram Hossen Mandal	Nil
			157	157	0.060	Private	Shali	Jhikria Hossen Mandal S/o Ekram Hossen Mandal	Nil
			158	158	0.125	Private	Shali	-	-
			159	159	0.190	Private	Shali	Billal Ali Mandal, Mojammal Hauk Mandal, Ainul Hauk Mandal ali S/o Abdul Hauk Mandal, Sabara Bibi W/o Abura Hauk Bibi	Nil
			160	160	0.230	Private	Shali	Ranglal Mandal Wakf Estate	Motowali-Sufia Bibi W/o Ranglal Mandal, Siddiqu Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal
			161	161	0.530	Wakf	Shali	Ranglal Mandal Wakf Estate	Motowali-Sufia Bibi W/o Ranglal Mandal, Siddiqu Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			162	162	0.130	Private	Shali	Omed Mondal S/o Hadi Mandal, Kanuja Khatun Bibi W/o Nur Mohammad Mandal, Khalil Mandal S/o Hadi Mandal, Baritannesa Bibi W/o Abdul Majid Layek	Nil
			163	163	0.030	Private	Shali	Mahammad Mahasin Mondal S/o Mahammad Yusuk Mondal	Nil
			165	165	0.230	Private	Shali	Anandamayee Mitra W/o Birinchi Ku. Mitra	Bargadar - Sk. Mohammad, S/o Sk. Mannan
			166	166	0.160	Private	Shali	Anowara Begam W/o Siddique Ali Mandal	Nil
			167	167	0.450	Private	Shali	Siddik Ali Mandal	Nil
			168	168	0.500	Private	Shali	Billal Ali Mandal, Mojjammal Hauk Mandal, Ainul Hauk Mandal all S/o Abdul Hauk Mandal, Sabara Bibi W/o Abura Hauk Bibi	Nil
			170	170	0.015	Private	Shali	Billal Ali Mandal, Mojjammal Hauk Mandal, Ainul Hauk Mandal all S/o Abdul Hauk Mandal, Sabara Bibi W/o Abura Hauk Mandal	Nil
			171	171	0.270	Wakf	Shali	Rangalal Mondal Wakf Estate	Matowali-Sufia Bibi W/o Rangalal Mandal, Siddiqu Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal
			172	172	0.200	Private	Shali	Afjan Bibi W/o Abu Maser Mandal	Nil
			173	173	0.105	Private	Shali	Samsura Khatun W/o Allarakha Mandal, Sdare Ali Mandal S/o Golam Kibiria Mandal, Asraf Ali Mandal S/o Allarakha Mandal, Ahaladi Mandal W/o Mosarof Mandal, Jaria Begam W/o Kaji Joynal Abedin, Taslima Bibi W/o Gofur Mandal	Nil
			367	367	0.005	Private	Shali	Siddik Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal	Nil
			368	368	0.170	Private	Shali	Mojammal Hossen S/o Kauser Mollah, Ainul Hauk Molla S/o Esmail molta	Nil
			369	369	0.520	Private	Shali	Hajee Abdul Kashem S/o Bholan Mandal	Nil
			370	370	0.420	Private	Shali	Sekh Abdul Ali S/o Hafezuddin, Sk. Nousad S/o Sk. Hafezuddin	Nil
			371	371	0.280	Private	Shali	Sekh Yunus S/o Sk Somed	Nil
			372	372	0.050	Private	Shali	Sekh Abdul Ali, Sk. Naushad, ali S/o Hafez Uddin	Nil
			374	374	0.285	Private	pukur	Mohammad Mohasin Mondal S/o Enait Ulla Mandal, Siddique Ali Mandal, Kayem Ali Mandal all S/o Noor Mohammad Mandal, Kanuja Khatun Bibi W/o Noor Md. Mandal, Hasina Bibi W/o Chaudhuri Mohhamad Hossen, Aisan Ali Mandal S/o Enatulla Mandal and others (7 nos.)	Nil
			376	376	0.005	Wakf	Shali	Rangalal Mondal Wakf Estate	Matowali-Sufia Bibi W/o Rangalal Mandal, Siddiqu Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal
			377	377	0.135	Private	Shali	Modud Mondal S/o Hardi Mandal	Nil
			378	378	0.520	Private	Shali	Sekh Yunus S/o Sk Somed	Nil
			379	379	0.500	Private	Shali	Modud Mondal S/o Hardi Mandal	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			380	380	0.005	Private	Shali	Mojammal Hauk Mondal S/o Abdul Hauk Mandal, Mohammad Mohasin Mandal S/o Enaet Ulla Mandal, Ainul Hauk Mandal S/o Abdul Hauk Mandal, Monoara Khatun D/o Ejatulla Mandal and others (23 nos.)	Jor Dong - Parsila Khatun W/o Kayem Ali
			381	381	0.350	Private	Shali	Sajahan Ali Mandal, Jahingir Mandal all S/o Siddique Ali Mandal, Sahidnessa Bibi W/o Monsur Ali Mandal	Nil
			382	382	0.285	Private	Shali	Anowara Begam W/o Siddique Ali Mandal	Nil
			403	403	0.150	Private	Shali	Mohammad Mohasin Mandal S/o Enaet Ulla Mandal, Aisan Ali Mandal S/o Enatulla Mandal	Nil
			406	406	0.005	Private	Shali	Choudhuri Majafar Hossen, all S/o Choudhuri Mohammad Hossen Hasina Bibi W/o Choudhuri Md. Hossen	Nil
			408	408	0.075	Private	Shali	Murtuja Bibi W/o Hurmat Mandal	Nil
			409	409	0.080	Private	Shali	Majaffar Hossen Mandal S/o Monuar Hossen Mandal, Sakawat Hossen Mandal S/o Monuar Hossen Mandal	Nil
			410	410	0.260	Private	Shali	Majaffar Hossen Mandal I, Saidul Hossain Mandal, Sakawat Hossain Mandal, Julfikar Hossain Mandal All S/o Manowar Hossain Mandal	Nil
			411	411	0.265	Wakf	Shali	Ranglal Mandal Wakf Estate	Matowali-Sufia Bibi W/o Ranglal Mandal, & others (3 nos.)
			412	412	0.160	Wakf	Shali	Ranglal Mandal, Wakf Estate	Matowali-Sufia Bibi W/o Ranglal Mandal, & others (3 nos.)
			414	414	0.005	Private	Shali	Mohammad Mohasin Mandal S/o Mahammad yusuf Mandal, Mh. Yassin Mandal S/o Yusuf Mandal, Md. Naseem Mandal S/o Md Yusuf Mandal	Nil
			415	415	0.075	Private	Shali	Monoara Khatun W/o Rakhibool Hasnat and others (9 nos.)	Nil
			418	418	0.070	Private	Shali	Hasem Ali Mandal S/o Nurmat Mandal	Nil
			419	419	0.210	Private	Shali	Hasem Ali Mandal S/o Lurnat Mandal	Nil
			420	420	0.47	Private	Shali	Mabia Khatun W/o Amir Hussain, Kayam Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal	Nil
			421	421	0.255	Private	Shali	Mabia Khatun W/o Amir Hossain, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal	Nil
			423	423	0.010	Private	Shali	Mansur Ali, Samsur Ali Mandal, Kohinoor Mandal All S/o Kayam Ali Mandal	Nil
			424	424	0.250	Private	Shali	-	-
			425	425	0.385	Private	Shali	Hasem Ali Mandal S/o Lurnat Mandal	Nil
			426	426	0.120	Private	Shali	Mahammad Mohasin Mandal S/o Mohammad yusuf Mandal, Yasin Mandal S/o Yusuf Mandal, Mohammad Nasim Mandal S/o Mohammad Yusuf Mandal	Nil
			427	427	0.110	Private	Shali	Mansur Ali S/o Kayem Ali Mandal, Samsur Ali Mandal S/o Kayem Ali Mandal, Kohinur Mandal D/o Kayem Ali Mandal	Nil
			593	593	0.015	Private	Shali	Choudhuri Majafar Hosen S/o Chaudhuri Mahammad Hossain, Hassina Bibi W/o Chaudhuri Mohammad Hossain	Nil
			594	594	0.295	Private	Shali	Samarendra Datta S/o Kamal Krishna Dutta	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			595	595	0.240	Private	Shali	Saida Bibi W/o Abdul Mannan Mandal, Helima Bibi D/o Mahasen Mandal, Angura Bibi D/o Mahasin Mandal	Nil
			596	596	0.335	Private	Shali	Choudhuri Majafar Hossen S/o Choudhuri Mohammad Hossain, Hosina Khatun W/o Choudhuri Mahedar Rahaman, Hasina Bibi W/o Choudhuri Mohammad Hossain	Nil
			597	597	0.380	Private	Shali	Akshia Khatun W/o Sk. Mahasen	Nil
			598	598	0.045	Private	Shali	Kulshuma Bibi W/o Sk. Wajed Ali	Nil
			599	599	0.030	Private	Shali	Sekh Mujibar Rahaman S/o Sk. Sayed, Sk. Abdul Rafik S/o Sk. Sayed, Sk. Hafizul S/o Sk. Sayed	Nil
			600	600	0.010	Private	Shali	Jeior Rohaman S/o Sk. Aziz	Nil
			601	601	0.230	Private	Shali	Siddik Ali Mondal S/o Noor Mohammad Mandal	Nil
			697	697	0.005	Private	Shali	Jigria Hosen Mondal S/o Ekram Hossain Mandal	Nil
			709	709	0.170	Private	Shali	Motiar Rahaman S/o Sk. Zakir, Nazera Khatun W/o Izzat Ullah Mandal	Nil
			715	715	0.230	Private	Shali	Choudhuri Majafar Hosen S/o Choudhuri Mohammad Hossen, Hasina Bibi W/o Choudhuri Mohammad Hossen	Nil
4.	Guir, Sheet Number-3, Jurisdiction List.86	2654	2257	2257	0.130	Private	Shali	Golam Ali Mondal S/o Rahim Mandal, Jamadar Ali Mandal S/o Abdul Rahim Mandal, Nauser Ali Chaudhari S/o Nababjan Chaudhari	Nil
			2258	2258	0.120	Private	Shali	Maleka Bibi W/o Sk Sarman, Abdul Khalek S/o Sk Sarman	Nil
			2259	2259	0.005	Private	Shali	Joyanta Roy S/o Nanigopal Roy	Nil
			2275	2275	0.085	Private	Shali	-	-
			2276	2276	0.030	Private	Shali	Sekh Allarakha S/o Sk. Aollad	Nil
			2277	2277	0.110	Private	Shali	-	-
			2278	2278	0.040	Private	Shali	Dhananjay Dutta S/o Hrishikesh	Nil
			2279	2279	0.170	Private	Shali	-	-
			2280	2280	0.265	Private	Shali	Idris Mondal S/o Lahar Mandal	Nil
			2281	2281	0.290	Private	Shali	Maleka Bibi W/o Sk. Sarman, Abdul khalek S/o Sk. Sarman	Nil
			2282	2282	0.300	Private	Shali	Idris Mondal S/o Lahar Mandal, Nowser Ali Chaudhuri S/o Nawab jan Chaudhuri	Nil
			2283	2283	0.730	Private	Shali	Sekh Ramjan S/o Sk. Allarakha	Nil
			2284	2284	0.160	Private	Shali	Sekh Abdul Adud S/o Sk. Allarakha	Nil
			2285	2285	0.050	Wakf	Shali	Abdul Baru, Wakf Estate	Matowali-Heckmat Ali Shah & others (3 nos.)
			2286	2286	0.050	Private	Shali	-	-
			2287	2287	0.125	Wakf	Shali	Rangalal Mondal Wakf Estate	Matowali-Heckmat Ali Shah & others (3 nos.)
			2288	2288	0.055	Private	Shali	Choudhuri Majaffar Hosen S/o Choudhuri Mohammad Hossain, Hasina Bibi W/o Choudhuri Mohammad Hossain	Nil
			2289	2289	0.350	Private	Shali	Nirmal Chandra Datta S/o Janakinath	Nil
			2290	2290	0.235	Private	Dow	Reerisikesh Dutta S/o Adhar Chandra Dutta	Nil
			2291	2291	0.125	Private	Dow	Harigopal Goswami S/o Shyama Charan	Bargadar- Shyama Pada Ruidas S/o Sripati
			2292	2292	0.260	Private	Shali	Hassem Ali Mondal S/o Nurmat Mandal, Twaieb Ali Mandal S/o Hurmat Mandal	Nil
			2374	2374	0.015	Private	Shali	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2375	2375	0.670	Private	Shali	Sushil kumar Datta S/o Rashbehari, Jayanta Roy S/o Nanigopal Roy	Nil
			2380	2380	0.075	Private	Shali	Ramchandra Datta S/o Adhar Chandra	Nil
			2381	2381	0.095	Private	Shali	-	-
			2382	2382	0.150	Private	Shali	Bibhuti Bhusan Saha S/o Indra Narayan and others (8 nos.)	Nil
			2383	2383	0.145	Private	Shali	Mabud Choudhury S/o Alijan Choudhury, Maleka Bibi W/o Sk Salman, Sadek Choudhury S/o Alijan Choudhury, and others (5 nos.)	Nil
			2384	2384	0.230	Private	Shali	Shashanka Sekher Dutta S/o Radharann	Nil
			2385	2385	0.245	Private	Shali	Manmohan Roy S/o Chandicharan Roy, Lakshi Narayan Roy S/o Chandicharan, and others (5 nos.)	Jor Dang-Abdul Latif & others
			2386	2386	0.205	Private	Doba	Sekh Sabed Ali, Ssk Sabar Ali, Sk. Sabed Ali, all S/o Sk. Allarakha, Sk. Allarakha S/o Sk. Owlad	Nil
			2387	2387	0.005	Private	Shali	Maleka bibi W/o Sk. Sarman, Abdul Khalek S/o Sk. Sarman	Nil
			2427	2427	0.085	Private	Shali	Sekh Sabar Ali S/o sk. Allarakha, Sk. Abdul Adud S/o Sk. Allarakha	Nil
			2485	2485	0.060	Private	Shali	Baradaprasanna Chakrabarty S/o Durga Prasanna, Basudeb Dutta S/o Dhananjay and others	
			2486	2486	0.360	Private	Shali	Basudeb Dutta S/o Dhananjay, Monmohan Roy S/o Chandicharan Roy, Raghunath Roy S/o Hrisikesh and others (7 nos.)	Anumati dang-Dibakar Roy, Lakshmarayan Roy & others (5 nos.)
			2487	2487	0.010	Private	Shali	Sushil Kumar Datta S/o Rashbihari	Nil
			2491	2491	0.830	Private	Shali	Ashis Kumar Saha, Tapas Kur Saha, Anup Ku. Saha all son of S/o Abhibusan.	Nil
			2493	2493	0.135	Private	Shali	Sunil Kumar Datta S/o Surendralal	Nil
			2494	2494	0.055	Private	Shali	Kalpada Mallick S/o Krishnapada Mallick	Nil
			2495	2495	0.035	Private	Shali	Kushadway Mallick, Nabakumar Mallick, Prasanta Mallick, all S/o Raghav Mallick, Badal Bala Mallick W/o Raghav Mallick	Nil
			2591	2591	0.300	Private	Shali	Mabud Sadek, Anur Ali Choudhury, S/o Alijan Choudhury.	Nil
			2592	2592	0.215	Private	Shali	Bhabani Prasad Hard S/o Madhusudan Hard and others	Nil
			2762	2762	0.075	Private	Shali	-	-
			4796	4796	0.005	Private	Shali	-	-
			4797	4797	0.720	Private	Shali	-	-
5.	Gnr, Sheet Number-4, Jurisdiction List.86	2654	2885	2885	0.070	Private	Shali	Shashadhar Dutta S/o Krishnachandra	Nil
			2886	2886	0.145	Private	Shali	-	-
			2895	2895	0.065	Private	Shali	Raghunath Roy S/o Hrisikesh, Kalpada Roy S/o Hrisikesh Roy, Chanda Bala Roy W/o Harisadhan Roy	Nil
			2896	2896	0.010	Private	Doba	Sekh Sabed Ali S/o Sk. Allarakha, Sk. Allarakha S/o Sk. Aolad	Nil
			2897	2897	0.080	Private	Shali	Basudeb Dutta S/o Dhananjay	Nil
			2898	2898	0.095	Private	Shali	Basudeb Dutta, Baladeb Dutta all S/o Dhananjay, Joydeb Dutta S/o Dhananjay Dutta	Nil
			2900	2900	0.180	Private	Shali	Taber Ali Mondal S/o Haji Hummad Mandal	Nil
			3573	3573	0.075	Private	Shali	Siddik Ali Mondal S/o Noor Mohammad Mandal, Mahia Khatun W/o Anur Hossain, Kayem Ali Mandal S/o Noor Mohammad Mandal	Bargadar - Samser Sana S/o Wazed Sana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3574	3574	0.045	Private	Shali	Bibhuti Bhusan Saha, Ranjit Kumar Saha, Sukumar Saha, Ahibhusan Saha, Ajit Kumar Saha all S/o Indra Narayan, Lakhi Rani Saha W/o Dharendra Kumar, Shankari Saha W/o Radhakrishna, Umarani Saha W/o Gourchandra	Nil
			3575	3575	0.060	Private	Shali	Basudeb Datta Baladeb Dutta all S/o Dhananjay, Joydeb Dutta S/o Dhananjay Dutta	Nil
			3576	3576	0.220	Private	Shali	Sk. Sabed Ali, Sk. Sabar Ali all S/o Sk. Alharakeha	Nil
			3577	3577	0.270	Private	Shali		
			3578	3578	0.360	Private	Shali	Sudhir Chandra Saha S/o Kalipada Hemchandra Saha S/o Nandalal Saha	Nil
			3579	3579	0.310	Private	Shali	Monoara Khatun W/o Rakhibul Hasnat, Chaudhuri Masarat Hossain, Chaudhuri Majaffar Hossain, Chaudhuri Liakat Hossain, Chaudhuri Nurul Hauk, Chaudhuri Najrul Latif all S/o Chaudhuri Mohammad Hossain, Hossina Khatun W/o Chaudhuri Mahedar Rahman, Hasina Bibi W/o Chaudhuri Mohammad Hossain, Tajoma Khatun W/o Abdul Rahim	Nil
			3580	3580	0.275	Private	Shali	Bibhuti Bhusan Saha, Ranjit Kumar Saha, Sukumar Saha, Ahibhusan Saha, Ajit Kumar Saha all S/o Indra Narayan, Lakhi Rani Saha W/o Dharendra Kumar, Sankari Saha W/o Radhakrishna, Umarani Saha W/o Gourchandra	Nil
			3581	3581	0.260	Private	Shali	Sekh Ramjan S/o Sk. Baru	Nil
			3582	3582	0.620	Private	Shali	Bibhuti Bhusan Saha, Ranjit Kumar Saha, Sukumar Saha, Ahibhusan Saha, Ajit Kumar Saha all S/o Indra Narayan, Lakhi Rani Saha W/o Birendra Kumar, Shankari Saha W/o Radhakrishna, Umarani Saha W/o Gourchandra	Nil
			3597	3597	0.140	Private	Shali	Binapani Pal W/o Panchu Gopal Pal	Nil
			3598	3598	0.300	Private	Shali	Rekha Saha W/o Sukumar	Nil
			3599	3599	0.800	Private	Shali	Bibhuti Bhusan Saha, Ranjit Kumar Saha, Sukumar Saha, Ahibhusan Saha, Ajit Kumar Saha all S/o Indra Narayan, Lakhi Rani Saha W/o Dharendra Kumar, Shankari Saha W/o Radhakrishna, Umarani Saha W/o Gourchandra	Nil
			3600	3600	0.380	Private	Shali	Sudhir Chandra Saha S/o Kalipada	Nil
			3601	3601	0.155	Private	Shali	Hasina Bibi W/o Chaudhuri Mohammad Hossain	Nil
			3602	3602	0.170	Private	Shali	Gitarani Sarkar W/o Bankimchandra Sarkar, Pushpa Rani Sarkar W/o Raghunath	Nil
			3603	3603	0.065	Private	Shali	Shibani Rani Saha W/o Ahibhusan Saha	Nil
			3604	3604	0.245	Private	Shali	Barada Prasanna Chakrabarty S/o Durgaprasanna, Ratan Mallick, Ranjan Mallick all S/o Amulya	Nil
			3605	3605	0.410	Private	Shali	Shasankashekhar Datta S/o Radharaman	Nil
			3606	3606	0.665	Private	Shali	Siddik Ali Mondal Kayem Ali Mandal all S/o Noor Mohammad Mandal, Mabi Khatun W/o Amir Hossain	Bargadar- Samser Sahana S/o Wajed Sahana
			3607	3607	0.065	Private	Shali	Sudhir Chandra Saha S/o Kalipada	Nil
			3610	3610	0.080	Private	Shali	Ramshankar Neogi, Shyamashankar Neogi, Umashankar Neogi, Durgashankar Neogi all S/o Bibhuti Bhusan	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3611	3611	0.110	Private	Shali	Baladeb Datta S/o Dhananjay	Nil
			3620	3620	0.270	Private	Shali	Mangala Ruidas S/o Nidhiram Ruidas, Lakhi Ruidas S/o Nidhiram, Satyabala Dasi Ruidas W/o Nidhiram, Abani Bala Ruidas W/o Amulya, Ajit Kumar Ruidas S/o Nidhiram, Krishnachandra Ruidas S/o Amulyacharan, Narayan Chandra Ruidas S/o Amulyacharan	Nil
			3621	3621	0.145	Private	Shali	Bibhuti Bhushan Saha, Ranjit Kumar Saha, Sukumar Saha, Abibhushan Saha, Ajit Kumar Saha all S/o Indra Narayan, Lakhi Rani Saha W/o Birendra Kumar, Sankari Saha W/o Radhakrishna, Umarani Saha W/o Gourchandra	Nil
			3622	3622	0.225	Private	Shali	Sharat Chandra Ruidas S/o Makhan Chandra Ruidas	Nil
			3625	3625	0.230	Private	Shali	Mayaram Roy W/o Samir Kumar, Shankar Prasad Roy, Sudarsan Roy, Sachchidananda Roy, all S/o Harisadhan, Chandibala Roy W/o Harisadhan	Nil
			3626	3626	0.475	Private	Shali	Sachindra Nath Ghosh S/o Khetramohan, Naba Kumar Chaudhuri S/o Phakir Chandra	Nil
			3627	3627	0.200	Private	Shali	Pada Ruidas S/o Mihlail	Nil
			3628	3628	0.180	Private	Shali	Ardendu Roy S/o Pasupati, Jagabandhu Roy S/o Pasupati Roy, Dinabandhu Roy S/o Pasupati	Nil
			3629	3629	0.075	Private	Shali	Barada Prasanna Chakrabarty S/o Durgaprasanna, Nilima Chakraborti W/o Sabitaprasanna	Nil
			3630	3630	0.005	Private	Shali	Shankari Prasad Dan S/o Akshay Kumar	Nil
			3631	3631	0.005	Private	Shali	Mahud Choudhury, Sadek Chaudhuri, Amir Ali all S/o Alijan Chaudhuri	Nil
			3632	3632	0.090	Private	Shali	Mir Iad Ali S/o Mir Mola Box, Mir Asgar Ali S/o Mir Saiad Ali	Nil
			3633	3633	0.470	Private	Shali	Lakshi Ruidas W/o Debendra, Swarasan Ruidas W/o Panchugopal, Abani Bala Ruidas W/o Amulya, Krishna Ch. Ruidas S/o Amulya Charan, Naryan Chandra Ruidas S/o Amulya Charan, Nirmala Ruidas W/o Gopal Chandra	Nil
			3634	3634	0.400	Private	Shali	Mayaram Datta W/o Bishrupada Dutta, Chandibala Roy W/o Harisadhan Roy	Nil
			3635	3635	0.010	Private	Shali	Abdul Moniruddin S/o Sk. Mazed	Nil
			3636	3636	0.060	Private	Shali	Basudeb Datta S/o Dhananjay	Nil
			3637	3637	0.480	Private	Shali	Rasik Chandra Ruidas S/o Nagendra Ruidas, Sadhan Ch. Ruidas, all S/o Haripada Ruidas, Umabala Dasi Ruidas W/o Haripada Ruidas, Kalipada Ruipada Das S/o Debendranath, Khudiram Ruidas, Jharulal Ruidas all S/o Nagendranath, Paban Ruidas S/o Nagendra Nath Ruidas	Nil
			3638	3638	0.190	Private	Shali	Sudhir Chandra Saha S/o Kalipada	Nil
			3639	3639	0.110	Private	Shali	Shreepati Ruidas S/o Gayaram Ruidas	Nil
			3640	3640	0.105	Private	Shali	Bishnupada Datta S/o Krishnachandra	Nil
			3641	3641	0.025	Private	Shali	Sudhir Chandra Saha S/o Kalipada Saha	Nil
			3648	3648	0.045	Private	Shali	Monmohan Roy S/o Chandu charan Roy, Raghunath Roy S/o Hrisikesh, Lakshi Narayan Roy, Sasadhar Roy, all S/o Chandicharan, Shyamal Kumar Dutta S/o Susil Kumar Dutta, Kali Pada Roy S/o Hrisikesh Roy Chandibala Roy W/o Harisadhan Roy Dibakar Roy S/o Chandu Charan	Nil



[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3651	3651	0.005	Private	Shali	Kartik Chandra Roy S/o Haru, Khudiram S/o Indra Roy, Ajay Kumar Roy S/o Indranarayan, Bijoy Kumar Roy S/o Indranarayan	Nil
			3652	3652	0.935	Private	Shali	Rasik Chandra Ruidas S/o Nagendra Ruidas, Sadhan Ch. Ruidas, all S/o Haridas, Umabala Dasi Ruidas W/o Haripada Ruidas, Kalipada Ruidas S/o Debendranath, Khudiram Ruidas, Jharulal Ruidas all S/o Nagendranath, Paban Ruidas S/o Nagendra Nath	Nil
			3653	3653	0.185	Private	Shali	Mirsaid Ali, Mir lad Ali all S/o Mir Maola Box	Nil
			3654	3654	0.295	Private	Shali	Sekh Abdur Rasid Sk. Abdur Masuruddin, Sk. Abdul Rajjak S/o Sk. Abdur Masiruddin	Nil
			3655	3655	0.500	Private	Shali	Ohad Box S/o Sk. Ohid	Nil
			3656	3656	0.310	Private	Shali	Sekh Samsudjjohe S/o Samsul Huda, Najamul Huda S/o Sk. Nurul Huda, Sk. Badrul Huda S/o Nurul Huda	Nil
			4808	4808	0.005	Private	Shali	Sekh Chandu Mondal S/o Hamed	Nil
6.	Amba, Jurisdiction List 98	2660 and 2663	2	2	0.360	Private	Shali		Nil
			3	3	0.090	Private	Shali	Abduljalil Sekh S/o Mojahar and others (3 nos.)	Nil
			9	9	0.035	Private	Shali	Bholanath Chattopadhyay S/o Shashibhusan Chattopadhyay	Nil
			10	10	0.760	Private	Shali	Afruja Khatun W/o Madud Ali and others (4 nos.)	Nil
			11	11	0.250	Private	Shali	Samsura Khatun Bibi and others (3 nos.)	Nil
			12	12	0.780	Private	Shali	Afruja Khatun and others (4 nos.)	Nil
			13	13	0.550	Private	Shali	Margina Khatun D/o Chandu Mandal	Nil
			14	14	0.060	Private	Shali	Samser Alam Sekh S/o Sk. Ali Baks.	Bargadar - Md. Unas Mandal S/o Ramjan
			572	572	0.100	Private	Shali	Rahim Baks Malik S/o Khorshed	Nil
			573	573	0.100	Private	Shali	Alema Bibi W/o Abdul Barik	Nil
			574	574	0.600	Private	Shali	Sekh Yakub Mondal S/o Aziz Mandal and others (2 nos.)	Nil
			575	575	0.485	Private	Shali	Sekh Abdul Alim S/o Abdul Barik	Nil
			576	576	0.340	Private	Shali	Tohura Bibi W/o Sk. Abdul and other (2 nos.)	Nil
			577	577	0.265	Private	Shali	Tohura Bibi W/o Sk. Abdul and other (2 nos.)	Nil
			583	583	0.175	Private	Shali	Pirotore Kaji Saheb gramyasadharan Motowali	Matowali - Helaluddin Sekh S/o Gopal & Ors. (5 nos.)
			584	584	0.020	Private	Shali	Ansar Ali, Md. Mohasin and others (5 nos.)	Nil
			585	585	0.165	Private	Shali	Sekh Golam Kibria S/o Sk. Samser	Nil
			586	586	0.050	Debottar	Bastu	Danottar Kalachand Karma Thakur	Sebari-Kardilal Pandit S/o Mrigendra & others (11 nos.)
			598	598	0.005	Private	Shali	Satainkar Samanta S/o Kalipada	Anumati Dang - Sanat Kumar Hati & others (2 nos.)
			599	599	1.410	Private	Shali	Raja Mian Sekh S/o Sekh Alkash	Nil
			600	600	0.550	Private	Shali	Samser Alam S/o Alkash and others (2 nos.)	Nil
			601	601	0.225	Private	Shali	Mahammad Badare Alam S/o Khalekjan and others (2 nos.)	Nil
			602	602	0.600	Private	Shali	Najera Khatun W/o Abdal Wahid and others (4 nos.)	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			654	654	1.100	Private	Shali	Afruja Khatun W/o Madud Ali and others (3 nos.)	Nil
			656	656	0.005	Private	Shali	Afruja Khatun W/o Madud Ali and others (3 nos.)	Nil
			659	659	0.005	Private	Shali	Murtaja Khatun Bibi W/o Moulavi Abdul Kasem and others (2 nos.)	Nil
			661	661	0.090	Private	Shali	Satyakinkar Samanta S/o Kalipada Samanta and others (8 nos.)	Balgadar Samat Kumar and others (2 nos.)
			662	662	0.675	Private	Shali	Abutaher Sekh S/o Sadek	Nil
			663	663	0.180	Private	Shali	Nishith Kumar Samanta S/o Prabhakar Samanta and others (4 nos.)	Nil
			664	664	0.030	Private	Shali	Durgadas Mohanta S/o Basantadas Mohanta and others (2 nos.)	Nil
			666	666	0.225	Private	Pond	Jaladhar Pandit S/o Mahendra and others (32 nos.)	Nil
			667	667	2.060	Private	Shali	Rahim Baks Mallick S/o Khorshed and others (3 nos.)	Nil
			669	669	0.005	Private	Shali	Abutaher Sekh S/o Sadam Ali and others (2 nos.)	Nil
			671	671	0.080	Patta	Shali	Subhas Chandra Hati S/o Rajendranath Hati	Patta- Jahera Begam W/o Samed Ali & others (5 nos.)
			687	687	0.005	Private	Shali	Murtaja Khatun Bibi W/o Moulavi Abdul Kasem	Nil
			1095	1095	0.280	Private	Shali	Sekh Abubakkar S/o Sk. Sade Mani	Nil

[F. No. 2010/W-2/SER/NL/11-Special Rly. Project]  
VINAY SINGH, Executive Director (Works)